

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 11—मार्च 17, 2017 (फाल्गुन 20, 1938)

No. 10] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 11— MARCH 17, 2017 (PHALGUNA 20, 1938)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 3

[PART I—SECTION 3]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी असांविधिक नियमावलियों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding to the Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued
by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

(भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 फरवरी 2017

संख्या 10(2)/2014/आई एंड सी/रक्षा (पुनर्वास) (संख्या 01, दिनांक 22 फरवरी 2017)—इस मंत्रालय के संकल्प संख्या 1, दिनांक 10 मार्च, 2016 के अनुक्रम में श्री अनिल माधव दवे, सांसद (राज्य सभा) के स्थान पर श्री ला. गणेशन, सांसद (राज्य सभा) को केन्द्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) का सदस्य नामित किया जाता है ।

बोर्ड के उपर्युक्त नए नामित सदस्य का कार्यकाल बोर्ड के गठन की तारीख अर्थात् 10.03.2016 से तीन वर्ष की अवशिष्ट अवधि होगा । उनको यात्रा भत्ते और अन्य भत्ते के भुगतान का प्रावधान नियमानुसार होगा ।

एस. के. सिन्हा

अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE
(DEPARTMENT OF EX-SERVICEMEN WELFARE)

New Delhi, the 22nd February 2017

No. 10(2)/2014/I&C/D (Res.) (No. 01, dated 22 February 2017)—In continuation to this Ministry's Resolutions No. 1 dated the 10th March, 2016, in place of Shri Anil Madhav Dave, MP (Rajya Sabha), Shri La, Ganesan, MP (Rajya Sabha) is nominated as member on the Kendriya Sainik Board (KSB).

The tenure of the above newly nominated member on the Board, will be residual period of three years from the date of constitution of the Board i.e. 10.3.2016. The provision in respect of payment of T.A. and other allowance to him, will be as per rules.

S. K. SINHA
Under Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in